

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	-2	-1	0	5	2	3	4
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	3.53	4.36	5.07	296218030	22115118	27936158	29399814
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	17.87	1.25	1.33	1.89	185733719	14132535	15356048	16657576
1.1.1 आउटराइट	10.56	0.68	0.76	1.30	16056018	1023439	1297378	2017823
1.1.2 रेपो	4.72	0.38	0.36	0.38	77286611	6510577	6589738	7078422
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.19	0.21	0.20	92391091	6598519	7468932	7561331
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.17	2.94	3.07	100639565	7343662	11758724	11992139
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.11	0.09	0.11	9844746	638922	821387	750099
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	235.59	307.03	262.41	201387682	14433296	21401969	16895789
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	234.46	305.71	261.16	181153129	12800746	19394683	15060026
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.23	1.12	1.32	1.24	20234553	1632550	2007287	1835763
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	149083.29	202008.61	194925.94	79781976	5845989	8242601	7126205
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.29	0.31	0.30	190	19	16	16
2.2 एपीबीएस \$	32964.63	2535.32	3506.60	2610.51	554034	36959	66841	57566
2.3 आईएमपीएस	56249.68	5503.65	4616.39	4492.53	7139110	592279	667813	621666
2.4 एनएसीएच जमा \$	16938.86	964.06	1861.26	1200.84	1670223	121718	176401	154683
2.5 एनईएफटी	96198.05	7040.03	9008.97	7687.52	44361464	3130549	4854308	3897348
2.6 यूपीआई @	1858660.25	133039.94	183015.08	178934.24	26056955	1964465	2477222	2394926
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.52	1.26	1.22	185	18	14	13
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1644.10	1891.35	1869.90	2208583	159006	211047	198565
3.1 भीम आधार पे @	230.08	20.50	19.59	17.39	6907	563	611	601
3.2 एनएसीएच नामे \$	19762.28	1494.37	1724.79	1709.27	2199327	158223	210246	197780
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	129.23	146.97	143.24	2349	220	191	184
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	4960.12	5789.52	5673.64	2605110	200409	240549	222351
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	3441.51	4586.50	4502.70	2109197	156498	201494	184237
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	1843.36	2302.66	2281.41	795022	61982	71473	67899
4.1.2 अन्य \$	23169.66	1598.15	2283.84	2221.29	1314175	94516	130021	116338
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1518.61	1203.02	1170.93	495914	43911	39055	38113
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	1126.31	895.82	875.30	332556	30022	25818	26187
4.2.2 अन्य \$	4140.06	392.30	307.20	295.63	163358	13889	13237	11926
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	5288.79	6783.69	6768.43	216751	14964	21465	21254
5.1 वालेट	52898.40	3993.29	5061.17	5157.38	154066	10507	16077	15896
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1295.49	1722.52	1611.04	62686	4457	5388	5358
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	695.13	648.24	649.25	11512	962	1016	1093
5.2.2 अन्य \$	9115.54	600.37	1074.28	961.79	51174	3495	4372	4265
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	525.73	531.76	494.77	7113350	667829	659873	645079
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	525.73	531.76	494.77	7113350	667829	659873	645079
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	161502.02	217004.93	209732.67	91925771	6888198	9375535	8213454
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	161737.61	217311.96	209995.08	293313453	21321494	30777505	25109243
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	161211.88	216780.20	209500.31	286200103	20653665	30117631	24464164

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
		1	2	3	4	5	6	7
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1756976.91	127302.31	171174.23	165744.58	39206221	2962262	3769671	3498574
1.1 अंतर्बैंक \$	110801.96	8373.78	9863.76	9301.40	7207439	552044	670272	617100
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	118928.53	161310.47	156443.19	31998782	2410218	3099400	2881474
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	47478.09	3796.75	4096.24	3642.69	131858133	9637480	13992340	11585683
2.1 अंतर्बैंक @	13056.37	966.25	1009.09	837.78	69086996	5089149	7319249	6047105
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2830.50	3087.15	2804.91	62771136	4548332	6673091	5538579
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	60308.11	5240.40	4983.78	4602.65	3063077	265905	263892	244747
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	97.25	9.07	7.43	6.86	5084	458	410	373
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	59965.70	5207.60	4957.22	4578.06	3046987	264457	262540	243494
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	245.16	23.73	19.13	17.73	11005	990	942	881
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	3.58	0.52	0.22	0.17	37	5	2	2
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	3.33	0.50	0.19	0.15	35	5	2	1
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.25	0.02	0.03	0.02	3	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11640.55	919.05	1102.31	928.36	296622	24502	29561	25662
5.1 एईपीएस @	11640.55	919.05	1102.31	928.36	296622	24502	29561	25662

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025 तक	2024	2025	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	11006.97	10534.85	11006.97	11064.20
1.1 क्रेडिट कार्ड	1098.85	1025.40	1098.85	1104.36
1.2 डेबिट कार्ड	9908.12	9509.45	9908.12	9959.84
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	13396.53	14716.82	13396.53	13444.93
2.1 वालेट @	8673.62	11294.83	8673.62	8719.54
2.2 कार्ड @	4722.91	3421.99	4722.91	4725.39
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.56	2.57	2.56	2.55
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.20	2.23	2.20	2.19
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.35	0.36	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	14.82	17.44	14.82	14.74
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	110.98	88.39	110.98	112.91
6 भारत क्यूआर @	67.18	60.73	67.18	66.84
7 यूपीआई क्यूआर *	6579.30	5597.20	6579.30	6624.75

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
 #: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
 \$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
 * सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।
 टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम है।
 2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
 3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्यूलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
 4. केवल पररेल वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन, फास्ट टैग लेनदेन, डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सचेंज कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
 भाग I-ए. निपटान प्रणाली
 1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
 भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
 4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
 4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
 5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
 5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
 5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
 6.1: तीन छिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
 6.2: 'अन्य' में गैर-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
 भाग I-ए. अन्य भुगतान चैनल
 1: मोबाइल भुगतान -
 बैंकों के मोबाइल ऐस और यूपीआई ऐस के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
 जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
 2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
 भाग II-बी. एटीएम
 3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
 भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
 3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।